

क्या करें



गति सीमा का पालन करें

दुर्घटना और जुर्माने से बचने के लिए गति सीमा में वाहन चलाना जरूरी है।



कार की सेहत का रखें ध्यान

कार को मासिक आधार पर क्या जरूरत है, इसका ध्यान रखें।



फर्स्ट ऐड बॉक्स को तैयार रखें

यदि आपके हाथ में चोट लग जाए तो सबसे पहले घाव को साफ करें और एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट एवं बैंडेज का इस्तेमाल करें। यदि चोट आंख में लगी हो तो तुरंत पानी से आंखों को धोएं और उन्हें खुला रखें।



एक अतिरिक्त टायर रखें

यह सुनिश्चित करें कि आपकी कार में अतिरिक्त टायर मौजूद हो और आपके पास अच्छा जैक भी होना चाहिए।




क्या ना करें



जोरिम भर आउवरटेक ना करें

सामने से वाहन निकल जाने के बाद ही आउवरटेक करें। आउवरटेक कर रहे वाहन से आगे निकलने की होड़ न करें।



सैंडल नहीं पहनें

वाहन चलाते वक्त जूतों के बजाय रबर स्लीपर न पहनें, क्योंकि वाहन चलाते वक्त ये घिस या फट सकते हैं।



ट्रैफिक सिगनल नहीं तोड़ें

ट्रैफिक सिगनल नहीं तोड़ें, क्योंकि इससे खतरनाक हादसा हो सकता है।



अन्य गतिविधियों में व्यस्त ना रहें

वाहन चलाते समय खाने, कपड़े बदलने, फोन इस्तेमाल करने जैसे कार्य खतरनाक हैं।

